



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2—दिसम्बर 8, 2006 (अग्रहायण 11, 1928)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2—DECEMBER 8, 2006 (AGRAHAYANA 11, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. ए-38012/2/06-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में
उप सचिव के रूप में कार्यरत श्रीमती प्रेम लता सैनी, केन्द्रीय सचिवालय
सेवा के अधिकारी द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर उन्हें
दिनांक 31.10.2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की
अनुमति प्रदान करते हैं।

दिनेश कुमार
अपर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 नवम्बर 2006

सं. डीपी/पर्स.-1/2006/224/3/65/2006--राष्ट्रपति ने श्री वाई. पी.
सिंह, भा. पु. सेवा (उ. प्र. : 1981) को 3 नवम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) से
2 नवम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने

तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप
में नियुक्त किया है।

अनुराग

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. ओ-दो-6703/2006-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र
स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री शीतला प्रसाद वर्मा, सहायक कमान्डेन्ट
(आई.आर.एल.ए.-6703), प्रशिक्षक अधिकारी, सीआरपीएफ अकादमी,
कादरपुर (Trainee Officer, 37th batch DAGOs of CRPF
Academy, Kadarpur) ने दिनांक 24.08.2006 को पूर्वाह्न में अपने
पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी
तिथि से अर्थात् दिनांक 24.08.2006 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 10 नवम्बर 2006

सं. ओ-दो-813/71-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--डॉक्टर आर. के. मोहन्ती, पुलिस महानिरीक्षक (चिकित्सा) (इरला नं. 819) संयुक्त अस्पताल, के. रि. पु. बल, नई दिल्ली ने सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 31.10.2006 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.10.2006 (अपराह्न) से निकाला गया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

दिनांक 13 नवम्बर 2006

सं. ओ-दो-3704/06-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर तशी पालेंग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 30.10.2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 173 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 नवम्बर 2006

सं. 3/7/2002-प्रशा.-I--गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 14 नवम्बर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21027/26/2006-आईपीएस-III के अनुसरण में, श्री डी. एम. मित्रा, भा. पु. सेवा (एमपी-83), उप निदेशक (अनुसंधान), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय अपराध-विज्ञान एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में निदेशक के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप उप निदेशक (अनुसंधान) के पद का कार्यभार 14 नवम्बर, 2006 को अपराह्न से छोड़ दिया है।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 नवम्बर 2006

सं. ई-28017/5/06/नोटि/कार्मिक-11/3099--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एस. के. मंडल सरकारी सेवा से दिनांक 30.09.2006 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने उप महानिरीक्षक केओसुब इकाई बी.सी.सी.एल. धनबाद का पदभार छोड़ दिया है।

ह/- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-28017/5/06/नोटि/कार्मिक-11/3100--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एस. एस. राणा सरकारी सेवा से दिनांक 31.05.2006 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने समूह कमान्डेन्ट, केओसुब समूह मुख्यालय, चंडीगढ़ का पदभार छोड़ दिया है।

ह/- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-28017/5/06/नोटि/कार्मिक-11/3101--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48-ए के अधीन सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री बरदान करकेटा ने दिनांक 01.10.2006 (पूर्वाह्न) से सहायक कमान्डेन्ट/जेएओ, केओसुब इकाई सी.सी.एल. कारगली के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ह/- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

सं. 1/1/2006-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के अधिकारी श्री सी. बी. काम्बले; भा.प्र.से. (त.ना. : 91) को निदेशक के मौजूदा स्तर पर दिनांक 23.10.2006 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 18 माह की अवधि अर्थात् 22.04.2008 तक अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, पदेन आधार पर जनगणना कार्य निदेशक, तमिलनाडु के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री सी. बी. काम्बले का मुख्यालय चेन्नई होगा।

देवेन्द्र कुमार सीकरी
अपर सचिव (भारत के महारजिस्ट्रार)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 2006

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.-13044/2006--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नत तिथि
1	2	3
1.	श्री सतीश चंद गुप्ता	14.06.2006
2.	श्री रामस्वरूप जोशी	04.07.2006
3.	श्री महेन्द्र कुमार सोलंकी	04.09.2006

1	2	3
4.	श्री करणी राम	04.09.2006
5.	श्री अनिल कुमार गहलोत	11.09.2006
6.	श्री फूल चंद कल्याणिया (अ.जा.)	04.09.2006
7.	श्री विजय कुमार अग्रवाल	04.09.2006
8.	श्री राजीव भाटिया	30.10.2006
9.	श्री शील सिंहल	31.10.2006
10.	श्री राजन भाटिया	01.11.2006
11.	श्री राकेश कुमार शर्मा	02.11.2006
12.	श्री लक्ष्मी नारायण चित्तौड़िया (अ.जा.)	03.11.2006

वी. के. जैन

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.-13044/2006--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नत तिथि
1.	श्री राम गोपाल कुण्डारा (अ.जा.)	14.06.2006
2.	श्री मदन लाल शर्मा	14.06.2006
3.	कु. पुष्पा खण्डेलवाल	31.08.2006 (अपराह)
4.	श्री किशोर कुमार शर्मा	31.08.2006 (अपराह)
5.	श्री गोपी. राम (अ.जा.)	31.08.2006 (अपराह)
6.	श्री हरचरण सिंह दुआ	30.10.2006
7.	श्री नानग राम चोपड़ा	01.11.2006
8.	श्री देवेन्द्र प्रकाश सक्सेना	01.11.2006

वी. के. जैन

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.-13044/2006--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके

नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नत तिथि
1.	श्री आनन्दी लाल (अ.जा.)	14.06.2006
2.	श्री नन्द किशोर शर्मा-III	01.09.2006
3.	श्री उमा शंकर माथुर	01.09.2006
4.	श्री रमेश कुमार रंगानी	01.09.2006
5.	श्री माल सिंह महला	01.09.2006
6.	श्री महेश कुमार शर्मा	30.10.2006
7.	श्री बजरंग लाल अग्रवाल	03.11.2006
8.	श्री लाल चंद काला (अ.जा.)	02.11.2006

वी. के. जैन

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

कार्यालय-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 13 नवम्बर 2006

सं. प्रशासन-III/पैन/5-2/खंड-I/1326--कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल के श्री अशोक कुमार मुखर्जी-III, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार दत्ता, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.10.2006 (अपराह) से प्रभावी वाधक्य पर सेवा-निवृत्ति ग्रहण की।

सुरेश चन्द्र दास

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 10 नवम्बर 2006

सं. का. स्था.(रोकड़)/पैन/10-2/2006-2007--प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए :-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवा निवृत्ति की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	श्री पी. ए. हुसैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	01.10.2006 पूर्वाह	स्वैच्छिक निवृत्ति
2.	श्री पी. एन. आनन्दन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	01.10.2006 पूर्वाह	स्वैच्छिक निवृत्ति

1	2	3	4
3.	श्री उदयभानू कंडेत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.10.2006	अधिवाषिकी
4.	श्रीमती वी. डी. ग्रेसी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.10.2006	अधिवाषिकी

दिवाकरन पिल्लै
व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले. व. ह.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 16 नवम्बर 2006

सं. का.स्था./ह. व. रो./ई-IV/पै./109--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा
विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री वी. चन्द्रशेखर पिल्लै	उप महालेखाकार, प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	31.10.2006 (अधिवाषिकी)
2.	श्रीमती पी. श्यामलकुमारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	31.10.2006 (अधिवाषिकी)
3.	श्रीमती पी. ओ. मरियाम्मा	सहायक लेखा अधिकारी, शाखा कार्यालय, कोट्टयम	31.10.2006 (अधिवाषिकी)

एम. राजन
उप महालेखाकार (प्रशासन)

वस्त्र मंत्रालय

हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2006

सं. 1/68/02/डीसीएच/सीईओ--राष्ट्रपति, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय (प्रवर्तन प्रभाग), में दिनांक 10.11.2006 से श्री ए. लोगनाथन तथा श्री एस. आदिनारायण को सहायक निदेशक (तकनीकी), ग्रेड-I, के पद पर रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

सत्येन शारदा
मुख्य प्रवर्तन अधिकारी

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. ए.-19011/91/2006-स्था.ए.पी.पी.--श्री आर. एन. कोष्टा, उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.10.2006 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

सं. ए.-19012/324/2006-स्था.ए.पी.पी.--श्री डी. जी. भिवापूरकर, सहायक प्रशासन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.10.2006 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. ए.-19012/237/2006-स्था.ए.पी.पी.--श्री एम. वी. साखरे, सहायक खनन अभियंता, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.10.2006 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 15 नवम्बर 2006

सं. 3831/ए-19011/एस.के.एस./ए.ओ.ग्रेड-1/2006/19ए--श्री सूर्य कान्त साहू की जाति की स्थिति के सत्यापन के परिणामस्वरूप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-1 (समूह-'क' राजपत्रित) के पद पर उनकी अस्थायी रूप से नियुक्ति आगामी आदेशों तक नियमित की जाती है।

शेखर कुमार सिन्हा
क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 1941ए/ए-32014(2-ओ.एस.)/2005/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री राम चन्द्र बैन, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्व.), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 03.10.2006 (पूर्वाह) से प्रभावित 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर

नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक के रूप में पदोन्नति पर नियुक्ति अग्रिम आदेशों तक अनुमोदित करते हैं।

शेखर कुमार सिन्हा
क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 1942ए/ए-32014(2-ओ.एस.)/2005/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री सनातन पण्डा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वे.), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 11.07.2006 (अपराह) से प्रभावित 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक के रूप में पदोन्नति पर नियुक्ति अग्रिम आदेशों तक अनुमोदित करते हैं।

शेखर कुमार सिन्हा
क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक 15 नवम्बर 2006

सं. 3864/ए-32013/आर.ए.ओ./2003/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री सोना सेठ, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इसी विभाग में 04.10.2006 के पूर्वाह से प्रभावित 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जसवंत सिंह
उप महानिदेशक (कार्मिक) एवं विभागाध्यक्ष
कृते महानिदेशक

सं. 3845/ए-32013/आर.ए.ओ./2003/19ए--राष्ट्रपति जी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों को इसी विभाग में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री हरिश चन्द्र	05.09.2006 (अपराह)
2.	श्री एच. एस. मदान	06.09.2006 (पूर्वाह)
3.	श्री एस. के. सिन्हा	05.09.2006 (अपराह)
4.	श्री आई. आर. के. राव	05.09.2006 (अपराह)

जसवंत सिंह
उप महानिदेशक (कार्मिक) एवं विभागाध्यक्ष
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 13 नवम्बर 2006

सं. पीडी/10(3)/96-आर-III/06/10722--इस केन्द्र की दिनांक 24 नवम्बर 2003 की अधिसूचना सं. पीडी/7(5)/200-आर-III/1993 के क्रम में नियंत्रक, भाषाओं उप आयुक्त का कार्यालय, उधमपुर, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में कार्यरत श्री राजा जी कोठीदार, स्थायित्व वरिष्ठ आशुलिपिक (पीए) को दिनांक 04 नवम्बर 2006 (पूर्वाह) से और एक वर्ष की अवधि के लिए रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 14 नवम्बर 2006

सं. पीडी/13(5)/98-आर-III/खण्ड-II/06/10747--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इस अनुसंधान केन्द्र के श्रीमती इंदीरा चॅटर्जी, सहायक कार्मिक अधिकारी को दिनांक 06.11.2006 (पूर्वाह) से, आगामी आदेशों तक रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में प्रशासनिक अधिकारी-II के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/13(5)/98-आर-III/खण्ड-II/06/10748--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इस अनुसंधान केन्द्र के कुमारी वेंगीपुरम तिरुवेंकटाचारी कमला चारी, सहायक कार्मिक अधिकारी को दिनांक 06.11.2006 (पूर्वाह) से, आगामी आदेशों तक रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में प्रशासनिक अधिकारी-II के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 14 नवम्बर 2006

सं. राकाकेट/प्रशा./भ.-807(I)/997--निदेशक, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर एतद्द्वारा श्री एस. बी. राम, सहायक, (वेतनमान रु. 5,500--9,000/-), बी.ए.आर.सी., मुम्बई को सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर रु. 6,500--10,500/- के वेतनमान में दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 की पूर्वाह से आगामी आदेशों तक राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. राराप्रौके/प्रशा./भ.-728(एसआरडी)/999--राष्ट्रपति, श्री पुष्पेन मण्डल को दिनांक 19.10.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. राराप्रौके/प्रशा./भ.-728(एसआरडी)/1000--राष्ट्रपति, श्री विजय कुमार मीणा को दिनांक 23.10.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 16 नवम्बर 2006

सं. राराप्रौके/प्रशा.-2006/भ.-805(अ)/1008--राष्ट्रपति, एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को पदोन्नति पर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदक्रम एवं वेतनमान में दिनांक 01 अगस्त, 2006 की पूर्वाह्न से क्रम संख्या 1 को छोड़कर स्थानापन्न रूप से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	सं.सं.	नाम	वर्तमान पद (वेतनमान)	पदोन्नत पद (वेतनमान)
1.	0256	श्री परशुराम गोकुलदास अवधी*	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (रु. 12,000-375-16,500)	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (रु. 14,300-400-18,300)
2.	0154	श्री दीपक कुमार जोशी	-वही-	-वही-
3.	0181	श्री के. के. शारंगपाणी	-वही-	-वही-
4.	1164	श्रीमती आरती शेलके	-वही-	-वही-
5.	0416	श्री जयकुमार सी	-वही-	-वही-
6.	0486	श्री प्रशान्त खरे	-वही-	-वही-
7.	1166	डॉ. कमल कुमार पन्त	-वही-	-वही-
8.	1091	श्री मंगेश बालकृष्ण बोरोगे	-वही-	-वही-
9.	0943	डॉ. ओमप्रकाश	-वही-	-वही-
10.	1070	श्री तापस गांगुली	-वही-	-वही-
11.	0953	श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर	-वही-	-वही-
12.	0941	डॉ. विनीत कुमार	-वही-	-वही-

*श्री परशुराम गोकुलदास अवधी, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ, क्रम सं. 1 पर दिनांक 31.07.2006 से 03.08.2006 तक अवकाश पर थे एवं दिनांक 04.08.2006 को कार्यभार ग्रहण किया अतः उनकी पदोन्नति उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जाएगी।

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 14 नवम्बर 2006

सं. भापाबो/भर्ती/4(13)/2006/1151--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा/मणुगुरु) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड/एफ, को वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड/जी के पद पर प्रत्येक के सामने दर्शाए गए दिनांक से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में रु. 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	भापाबो/संयंत्र	पदोन्नति ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री		
1.	शशि भूषण	भापाबो (केन्द्रीय कार्यालय)	01.08.2006
2.	ओम प्रकाश श्रीवास्तव	भापाबो (केन्द्रीय कार्यालय)	01.08.2006
3.	अनिल कुमार आचार्य	भापासं. (कोय)	01.08.2006
4.	राम नाथ शर्मा	भापासं. (कोय)	01.08.2006
5.	त्रिभुवन नाथ यादव	भापासं. (कोय)	07.08.2006
6.	हेमन्त कुमार सक्सेना	भापासं. (कोय)	01.08.2006
7.	चंद्र शेखर श्रीवास्तव	भापासं. (कोय)	01.08.2006
8.	खगेंद्र कुमार महापात्र	भापासं. (तालचेर)	01.08.2006
9.	मातुरु चंद्रमौली	भापासं. (तालचेर)	01.08.2006
10.	शम्भू प्रसाद पट्टनायक	भापासं. (तालचेर)	01.08.2006
11.	घंट सतीष	भापासं. (मणुगुरु)	01.08.2006
12.	अरूण बोस	भापासं. (मणुगुरु)	01.08.2006
13.	रिजु भटनागर	भापासं. (मणुगुरु)	01.08.2006
14.	प्लबन कुमार मलिक	भापासं. (मणुगुरु)	01.08.2006
15.	दसिनि वेंकटेशवरलु	भापासं. (मणुगुरु)	01.08.2006

उपरोक्त अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. के. सैनी
मुख्य प्रशासन अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 11 नवम्बर 2006

सं. नाईस/काप्रभ-I/03/03/1063--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'सी' के रूप में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर अगले आदेशों पर्यंत सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. सुश्री विजय रेखा दासिका
2. श्री एम सत्यनारायण

3. श्री एस. आर. कृष्ण याराबरला

4. श्री समीर नौटियाल

वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'सी' के रूप में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई दिनांक 01.09.2006 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर अगले आदेशों पर्यंत सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

1. श्री पी. रंगनाथ प्रसाद
2. श्री हरजीत सिंह वर्मा
3. श्री सुशांत निगम

सं. नाईस/काप्रभ-I/03/03/1064--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को नया जर्कोनियम ऑक्साइड एवं स्पंज संयंत्र, पलयकायल तूतिकोरिन (नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद) में रु. 8,000-275-13,500/- के

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 14 नवम्बर 2006

सं. पखनि-4/2/2006-भर्ती/1373--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इन्जीनियरों को दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान पर वैज्ञानिक अधिकारी/एफ के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	विराग शरन	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञा.)	01.08.2006
2.	एस. बी. सिंह	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञा.)	01.08.2006
3.	बिकास कुमार गुहा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
4.	एन. जी. के. आचार्यलू	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञा.)	01.08.2006
5.	एन. के. बहुखंडी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञा.)	01.08.2006
6.	एस. आर. भगवान	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
7.	डॉ. ए. युगंधर राव	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
8.	जी. एस. चौधरी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञा.)	01.08.2006
9.	डॉ. एरिक डीक्रूज	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
10.	के. के. सिन्हा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
11.	एम. के. गांगुली	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (तकनी.)	01.08.2006
12.	ए. मीताक्षी सुन्दरी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
13.	डॉ. नीरू रावल	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
14.	वाई. वी. रत्नय्या	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
15.	आर. सी. जैन	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
16.	राजीव विमल	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
17.	डॉ. ए. वी. सुब्रमणियम	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
18.	राजन चोपड़ा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006

1	2	3	4	5	6
19.	सर्वश्री डी. भट्टाचार्य	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
20.	यू. पी. शर्मा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
21.	एस. के. शर्मा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006
22.	पी. नागेश्वर राव	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)	01.08.2006

डॉ. अंजन चाकी
निदेशक

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. ए-32013/1/2005-स्थापना-2--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर श्री ए. के. चोपड़ा, उप महानिदेशक को दिनांक 08 नवम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर तथा अगले आदेशों तक संयुक्त महानिदेशक के पद पर 18,000-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में नागर विमानन महानिदेशालय में नियुक्त किया जाता है।

रवीन्द्र कुमार

उपनिदेशक, प्रशासन

कृते महानिदेशक नागर विमानन

निर्माण महानिदेशालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2006

सं. 27-एडीजी/ए(1)/2006-ई.सी.-2/ई.डब्ल्यू.-1--श्री अनन्त राम, अपर महानिदेशक (विशेष), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर सरकारी सेवा से 30.11.2006 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त होंगे।

दीपक ग्रोवर
अवर सचिव

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुम्बई-400020, दिनांक 1 नवम्बर 2006

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2006--श्री मनोज कश्यप, हिन्दी अनुवादक, आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठें, नई दिल्ली को, तदर्थ आधार पर, पूर्णतः अस्थायी क्षमता में, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि के लिए, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठें, नई दिल्ली में स्थानापन्न रूप में, हिन्दी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी तथा उस श्रेणी में, तदर्थ आधार पर, उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अधिप्राय से अथवा उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गांधी
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रोवीस मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/090580/24929--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रोवीस मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिगम्बर फाईबर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/104191/24932--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दिगम्बर फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐयरन एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/93995/24936--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऐयरन एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नानक मेडीवेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/105123/24939--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नानक मेडीवेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिथुन इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/76495/24942--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिथुन इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्सीलेन्स सरवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/93443/24954--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सीलेन्स सरवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री राधा कृष्ण लूम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/90888/24960--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री राधा कृष्ण लूम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिक्षा आर्टो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/93120/24961--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दिक्षा आर्टो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री राधा ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/97912/24976--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री राधा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लीज़र मार्किटिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/94464/24979--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लीज़र मार्किटिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जिम एण्ड जूडी हेड मार्किटिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/94091/24982--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जिम एण्ड जूडी हेड मार्किटिंग इण्डिया

प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूनैक्स मल्टीलेयर्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/18741/25013--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूनैक्स मल्टीलेयर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुप्ता कोसमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/05/34496/25028--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुप्ता कोसमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जग-मग कन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/101576/25031--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जग मग कन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विप्रोस विजिलेन्ट सिक्युरिटी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/114214/25034--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विप्रोस विजिलेन्ट सिक्युरिटी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धन गंगा चिट फण्ड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/05/33829/25035--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स धन गंगा चिट फण्ड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. एल. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/05/30802/25037--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. एल. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चैन फोर्लिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/05/33089/25038--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चैन फोर्लिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महामाया ऑटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/95290/25077--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महामाया ऑटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स थोर्प मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/93956/25083--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स थोर्प मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम

आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हन्ट सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/93720/25086--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हन्ट सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अल्फा सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/89165/25089--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अल्फा सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विटजेनवर्ग नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/93844/25092--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विटजेनवर्ग नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्राईवेट

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/93571/25110--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डी-मार्क नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

डॉ. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/92452/25128--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मार्क फ्लाईट लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड का

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अंकल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/32615/25140---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अंकल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वर्णन कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/32521/25143--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वर्णन कम्प्यूनिक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. के. फूड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/32847/25146--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स के. के. फूड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

का. नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी. एम. एम. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/65422/25182--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वी. एम. एम. इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एफ. ए. एफ. स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/76981/25192--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एफ. ए. एफ. स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लक्की फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/79774/25195--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लक्की फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्कोच-ई-एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/101551/25198--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्कोच-ई-एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रचित स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/79607/25201--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रचित स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डैलफी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/80646/25203--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डैलफी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैन्टम फ्लोरी टैक एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/97934/25207--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सैन्टम फ्लोरी टैक एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्री वैक्टर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/95782/25208--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्री वैक्टर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी. ए. लीजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57355/25211--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डी. ए. लीजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महेश ग्लास सिरन्जस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57501/25214--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महेश ग्लास सिरन्जस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेनलब फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57509/25217--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेनलब फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वसुन्धरा एग्रो टैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/70280/25220--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वसुन्धरा एग्रो टैक प्राईवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पैरामाऊन्ट ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57710/25225--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पैरामाऊन्ट ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वुलकेन कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57732/25228--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वुलकेन कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनम पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/92753/25231--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनम पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यू. के. टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/89598/25240--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यू. के. टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किसगा स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/77088/25249--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स किसगा स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गौरव फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/80240/25243--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गौरव फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्वालिटी ऑफसेट प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/100208/25252--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्वालिटी ऑफसेट प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ल्यूवेल डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/83756/25246--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ल्यूवेल डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड का

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्सिस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/77638/25255--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सिस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

डी. आर. चतुर्वेदी
उप. कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/05/33488/25273--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर.जी.टी. कैरियर्स एण्ड कान्टेनर्स

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सहगलस वेत एन वाइल्ड
रिसोर्ट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/82620/25276--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सहगलस वेत एन वाइल्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ई.एल.एस. इन्टरनेशनल
(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57659/25285--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ई.एल.एस. इन्टरनेशनल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सी. एम. जिन्दल इलैक्ट्रॉनिक्स
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57027/25279--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सी. एम. जिन्दल इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम.डी.आई. शेयर सर्विसेस
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57553/25288--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम.डी.आई. शेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सर्वोत्तम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57426/25282--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सर्वोत्तम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जुबेदा इन्जीनियर्स वर्क्स प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/44036/25290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जुबेदा इन्जीनियर्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोस्मोपोलिटन पब्लिक स्कूल लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/24403/25293--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोस्मोपोलिटन पब्लिक स्कूल लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जामिया इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/79053/24424--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जामिया इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अर्जुन कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/78779/25296--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अर्जुन कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनीपुर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 23 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/83699/25519--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मनीपुर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टुवेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/18487/25299--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टुवेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीप शिखा क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 23 जून 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/106071/25547--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दीप शिखा क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तनू लैदर्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 26 जून 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/16292/25608--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स तनू लैदर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पुष्प वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जून 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/40097/25788--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स पुष्प वायर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लावाटो ऑटो गैस प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 2006

सं. कं.सं. 560(5)/24789/एस.सं./एसईएस-2003/2006-07--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लावाटो ऑटो गैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 16 नवम्बर 2006

सं. आरओसी/एसईएस/560(5)/5382--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :--

क्रम सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1.	15-001327	मैसर्स लायन्स पेपर पैक प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-002581	मैसर्स जेडी फार्म टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-003681	मैसर्स एलको फॉयल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-003700	मैसर्स रिप्लिका फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 14th November 2006

No. 22/Cal./2006/SCA/Genl.—In partial modification of Notification of even number dated September 1, 2006 notifying the list of Supreme Court Holidays, 2007 and Summer Vacation of the Court, it is hereby notified that January 2, January 29 and September 3 be shown as "local holidays". Consequently, January 1, January 30 and September 4 be read as 'New Year & Id-ul-Zuha (Bakrid)', 'Muharram' and 'Janmashtami' Holidays respectively.

The rest of the aforesaid Notification dated September 1, 2006 remains unchanged.

T. N. SANSI
Registrar (Admn. Genl.)

HOLIDAYS

Name of Holidays	Month & Date	Days of the Week
1	2	3
New Year Holiday & Id-ul-Zuha (Bakrid)	January, 1	Monday
Local Holiday	January, 2	Tuesday
Republic Day	January, 26	Friday
Local Holiday	January, 29	Monday
Muharram	January, 30	Tuesday
Maha Shivaratri	February, 16	Friday
Holi Holidays	March, 5 & March, 6	Monday & Tuesday
Ram Navami	March, 27	Tuesday
Mahavir Jayanti	March, 31	Saturday
Good Friday	April, 6	Friday
Independence Day	August, 15	Wednesday
Raksha Bandhan	August, 28	Tuesday
Local Holiday	September, 3	Monday
Janmashtami	September, 4	Tuesday
Mahatma Gandhi's Birthday	October, 2	Tuesday
Dussehra Holidays	October, 15 to October, 20	Monday to Saturday
Diwali Holidays	November, 5 to November, 10	Monday to Saturday

1	2	3
Guru Nanak's Birthday	November, 24	Saturday
Id-ul-Zuha (Bakrid)	December, 21	Friday
Christmas & New Year's Holidays	December, 17 to January, 1 2008	Monday to Tuesday 2008

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 31st October 2006

No. A-38012/2/2006-Admn. I.—The President is pleased to permit Smt. Prem Lata Saini, CSS, working as Deputy Secretary in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st October, 2006.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 14th November 2006

No. DP/Pers. I/2006/224/3/65/2006.—The President is pleased to appoint Shri Y. P. Singh, IPS, (UP : 1981) as Joint Director in Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 3rd November, 2006 for a period upto 2nd November, 2011, or until further orders, whichever is earlier.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110 003, the 7th November 2006

No. O-II-6703/2006-Pers-I.—Consequent on acceptance of his notice for resignation from Government service, Shri Shitala Prasad Verma, Asstt Comdt (IRLA No. : 6703) trainee officer, 37th batch DAGOs of CRPF Academy Kadapur, was relieved from his post on 24.08.2006 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 24.08.2006 (FN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

The 10th November 2006

No. O. II. 813/71-CRC (MOs).—On his superannuation from service, Dr. R. K. Mohanty, IG (Medical) (IRLA-812), Composite Hospital, CRPF, New Delhi, made over charge of his post from the afternoon of 31.10.2006. Accordingly, his

name deleted from the strength of the Force from 31.10.2006 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers.-I)

The 13th November 2006

No. O. II. 3704/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Tashi Paleng as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 30.10.2006 till further order. He is posted to 173 Bn., CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110 003, the 20th November 2006

No. 3/7/2002-Admn. I.—Consequent upon his appointment as Director, National Institute of Criminology & Forensic Science, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, Shri D. M. Mitra, IPS (MP : 83), Deputy Director (Research), Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi has relinquished charge of the post of Deputy Director (Research) with effect from the afternoon of November 14, 2006 in pursuance of Government of India, Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 21017/26/2006-IPS. III dated 14th November, 2006.

A. K. SOOD
Assistant Director (Admn.)

DIRECTOR GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-3, the 15th November 2006

No. E-28017/5/Noti/Pers. II/3099.—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri S. K. Mondal, relinquished the charge of the post of Dy. Inspector General, CISF Unit, BCCL Dhanbad in the afternoon of 30.09.2006.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General (C. I. S. F.)

No. E-28017/5/Noti/Pers. II/3100.—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri Sarban Singh Rana, Group Commandant, CISF Gp HQrs., Chandigarh, relinquished the charge of the post of Group Commandant, CISF, Gp HQrs., Chandigarh in the afternoon of 31.05.2006.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General (C. I. S. F.)

No. E-28017/5/Noti/Pers. II/3101.—Consequent upon his voluntary retirement from Govt. service under Rule-48A of CCS (Pension) Rules, 1972, Shri Bardan Kerketta, relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant/JAO, CISF Unit, CCL Kargali in the forenoon of 01.10.2006.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General (C. I. S. F.)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110 001, the 30th October 2006

No. 1/1/2006-Ad. III.—The President is pleased to appoint Shri C. B. Kamble, IAS (TN : 91) an officer belonging to Tamil Nadu Cadre of the Indian Administrative Services as Director of Census Operations, Tamil Nadu on ex-officio basis with effect from 23.10.2006 (FN) on central deputation at the present level of Director for a period of 18 months that is upto 22.04.2008 or until further orders, whichever is earlier.

The Headquarters of Shri C. B. Kamble will be at Chennai.

D. K. SIKRI
Additional Secretary (RGI)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL AUDIT) RAJASTHAN

Jaipur, the 2006

No. Admn. I/Au/P-13044/2006.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Section Officers to the post of Asstt. Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in an officiating capacity on the probation of two years till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	Satish Chand Gupta	14.06.2006
2.	Ram Swaroop Joshi	04.07.2006
3.	Mahendra Kumar Solanki	04.09.2006
4.	Karni Ram	04.09.2006
5.	Anil Kumar Gehlot	11.09.2006
6.	Phool Chand Kalyania (SC)	04.09.2006
7.	Vijay Kumar Agrawal	04.09.2006
8.	Rajeev Bhatia	30.10.2006

1	2	3
	S/Shri	
9.	Sheel Singhal	31.10.2006
10.	Rajan Bhatia	01.11.2006
11.	Rakesh Kumar Sharma	02.11.2006
12.	Laxmi Narain Chittoria (SC)	03.11.2006

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

No. Admn. I/Au/P-13044/2006.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Audit Officers to the post of Sr. Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	Ram Gopal Kundara (SC)	14.06.2006
2.	Madan Lal Sharma	14.06.2006
3.	Miss Pushpa Khandelwal	31.08.2006 (AN)
4.	Kishore Kumar Sharma	31.08.2006 (AN)
5.	Gopi Ram (SC)	31.08.2006 (AN)
6.	Har Charan Singh Dua	30.10.2006
7.	Nanag Ram Chopra	01.11.2006
8.	Devendra Prakash Saxena	01.11.2006

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

No. Admn. I/Au/P-13044/2006.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Asstt. Audit Officers to the post of Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	Anand Lal (SC)	14.06.2006
2.	Nand Kishore Sharma-III	01.09.2006

1	2	3
	S/Shri	
3.	Uma Shankar Mathur	01.09.2006
4.	Ramesh Kumar Rangani	01.09.2006
5.	Mal Singh Mahla	01.09.2006
6.	Maresh Kumar Sharma	30.10.2006
7.	Bajrang Lal Agarwal	03.11.2006
8.	Lal Chand Kala (SC)	02.11.2006

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 13th November 2006

No. Admn. III/Pen/5-2/Vol. VI/325.—S/Shri Asoke Kr. Mukherjee-III, Sr. Audit Officer, & Pankaj Dr. Dutta Sr. Audit Officer, of this office retired from service on superannuation on 31.10.2006 (AN).

SURESH DANTDAS
DAG (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 10th November 2006

No. OE (Cash)/Pen/10-2/2006-2007.—The following officers of the Office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala, thiruvananthapuram have retired from Government Service on the date noted against their names.

Sl. No.	Name & Designation	Date of Retirement	Remarks
1.	Shri P. A. Hussain Senior Audit Officer	01.10.2006 (F.N.)	Voluntary retirement
2.	Shri P. N. Anandan Assistant Audit Officer	01.10.2006 (F.N.)	Voluntary retirement
3.	Shri Udayabhanu Kandeth Senior Audit Officer	31.10.2006	Super-annuation
4.	Smt. V.D. Gracy Senior Audit Officer	31.10.2006	Super-annuation

DIVAKARAN PILLAI
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),
KERALA

Thiruvananthapuram, 16th November 2006

No. O. E/E & C/EIVP/109.—The following Officials of IA & AD retired from service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Shri V. Chandra-sekhara Pillai	Dy. Accountant General, Main Office, Trivandrum	31.10.2006 (Super-annuation)
2.	Smt. P. Syamalakumari	Sr. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	31.10.2006 (Super-annuation)
3.	Smt. P. O. Mairamma	Asstt. Accounts Officer, Branch Kottayam	31.10.2006 (Super-annuation)

M. RAJAN
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR
HANDLOOMS

New Delhi, the 10th November 2006

No. 1/68/02/2002/DCH/CEO.—The President is pleased to appoint Shri A. Loganathan as Assistant Director (Technical), Grade-I and Shri S. Adinarayana as Assistant Director (Technical), Grade-I in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Enforcement Wing), w.e.f. 10.11.2006.

SATYAN SHARDA
Chief Enforcement Officer

MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 7th November 2006

No. 19011/91/2006 Estt.-APP.—Shri R. N. Koshta, Dy. Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 31.10.2006 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admin Officer

No. 19012/324/2006 Estt.-APP.—Shri D. G. Bhiwapurkar, Asstt. Administrative Officer, Indian Bureau of Mines,

Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 31.10.2006 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admin Officer

The 8th November 2006

No. 19012/237/2006 Estt.-APP.—Shri M. V. Sakhare, Asstt. Mining Engineer, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 31.10.2006 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admin Officer

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 15th November 2006

No. A-19011/SKS/A. O. Gr. I/2006/19A.—Consequent upon verification of caste status of Shri Surjya Kanta Sahoo, his appointment to the post of Administrative Officer Grade I (Group 'A' Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 23.08.2006 until further orders, is hereby regularised.

S. K. SINHA
Regional Administrative Officer
for Director General

No. 1941A/A-32014 (2-OS)/2005/19B.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, G. S. I. is pleased to approve the appointment of Shri Ram Chandra Bain, STA (Survey) in Geological Survey of India as Officer Surveyor on promotion in G.S.I. on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from 03.10.2006 (FN) until further orders.

S. K. SINHA
Regional Administrative Officer
for Director General

No. 1942B/A-32014 (2-OS)/2005/19B.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, G. S. I. is pleased to approve the appointment of Shri Sanatan Panda, STA (Survey) in Geological Survey of India as Officer Surveyor on promotion in G.S.I. on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from 11.07.2006 (AN) until further orders.

S. K. SINHA
Regional Administrative Officer
for Director General

The 15th November 2006

No. 3864 SP/A-32013/RAO/2003/19A.—The President is pleased to appoint Shri Sona Sett, Senior Administrative Officer, Geological Survey of India to the post of Regional Administrative Officer on promotion on regular basis on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the same department with effect from 04.10.2006 (FN) until further orders.

JASWANT SINGH
Dy. Director General (Personnel) & H.O.D.
for Director General

No. 3845/SP/A-32013/RAO/2003/19A.—The President is pleased to appoint the following Senior Administrative Officers, Geological Survey of India to the post of Regional Administrative Officer on promotion on regular basis on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the same department with effect from the date as mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of promotion
1.	Shri Harish Chandra	05.09.2006 (AN)
2.	Shri H. S. Madan	06.09.2006 (FN)
3.	Shri S. K. Sinha	05.09.2006 (AN)
4.	Shri I. R. K. Rao	05.09.2006 (AN)

JASWANT SINGH
Dy. Director General (Personnel) & HOD
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 13th November 2006

No. PD/10(3)/96-R-III/06/10722.—In continuation to this Centre's Notification No. PD/7 (5)/200-R-III/1993 dated November 24, 2003, Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Raja Jee Kothidar, Quasi-Permanent Sr. Stenographer (PA) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the office of the Dy. Commissioner, Udampur, Govt. of J&K as Private Secretary (Non-Secretariat) in this Research Centre in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- for a further period of one year with effect from the forenoon of 04.11.2006 on deputation basis.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 14th November 2006

No. PD/13(5)/98-R-III/Vol. II/2006/10747.—Controller, BARC appoints Smt. Indira Chatterjee, Assistant Personnel

Officer of this Research Centre to officiate as Administrative Officer-II in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in this Research Centre itself w.e.f. the forenoon of 06th November, 2006 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/13(5)/98-R-III/Vol. II/2006/10748.—Controller, BARC appoints Kum. Vankipuram Thiruvengkatchari Kamala Chari, Assistant Personnel Officer of this Research Centre to officiate as Administrative Officer-II in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in this Research Centre itself w.e.f. the forenoon of 6th November, 2006 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

RAMA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 14th November 2006

No. RRCAT/Admn/Rect-807 (I)/997.—The Director, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore hereby appoints Shri S. B. Ram, Assistant, (Scale of pay of Rs. 5,500—9,000/-), BARC to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500/- with effect from the forenoon of 31st October, 2006 in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admn/R-728(SRD)/999.—The President is pleased to appoint Shri Puspen Mondal as Scientific Officer/C in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 19.10.2006 in an officiating capacity in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admn/R-728(SRD)/1000.—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Meena as Scientific Officer/C in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 23.10.2006 in an officiating capacity in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

The 16th November 2006

No. RRCAT/2006-Admn/R-805 (A)/1008.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers on promotion to the grade indicated against them with effect from the forenoon of 01.08.2006 except Sr. No. 01 in an officiating capacity in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :—

Sl. No.	CC No.	Name of Officer	Present Grade (Scale of Pay)	Promoted Grade (Scale of Pay)
01.	0256	S/Shri/Smt. Parshuram Gokuldas Audi*	Scientific Officer/E (12,000-375-16,500/-)	Scientific Officer/F (14,300-400-18,300/-)
02.	0154	Deepak Kumar Joshi	--do--	--do--
03.	0181	K. K. Sharangpani	--do--	--do--
04.	1164	Arti Shelke	--do--	--do--
05.	0416	Jayakumar C	--do--	--do--
06.	0486	Prashant Khare	--do--	--do--
07.	1166	Dr. Kamal Kumar Pant	--do--	--do--
08.	1091	Mangesh Balkrishna Borage	--do--	--do--
09.	0943	Dr. Om Prakash	--do--	--do--
10.	1070	Tapas Ganguli	--do--	--do--
11.	0953	Shailendra Singh Tomar	--do--	--do--
12.	0941	Dr. Vinit Kumar	--do--	--do--

*As Shri Parshuram Gokuldas Audi, SO/F at Sr. No. 1 was on leave from 31.07.2006 to 03.08.2006 and joined duty on 04.08.2006, his promotion will be effective from his date of joining.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 14th November 2006

No. HWB/R/4 (13)/2006/1151.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'F' of Heavy Water Board (Central Office)/Heavy Water Plant (Kota/Talcher/Manuguru) as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- with effect from the forenoon of date mentioned against

each in the same Office/Plant in a temporary capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Unit	Date of Appointment to the Promoted Grade
1.	S/Shri Shasi Bhushan	HWB (Central Office)	01.08.2006
2.	Om Prakash Shrivastava	HWB (Central Office)	01.08.2006
3.	Anil Kumar Acharya	HWP (Kota)	01.08.2006
4.	Ram Nath Sharma	HWP (Kota)	01.08.2006
5.	Tribhuvan Nath Yadav	HWP (Kota)	07.08.2006
6.	Hemant Kumar Saxena	HWP (Kota)	01.08.2006
7.	Chandra Shekhar Shrivastava	HWP (Kota)	01.08.2006
8.	Khagendra Kumar Mohapatra	HWP (Talcher)	01.08.2006
9.	Maturu Chandramouli	HWP (Talcher)	01.08.2006
10.	Sambhu Prasad Patnaik	HWP (Talcher)	01.08.2006
11.	Ghanta Satheesh	HWP (Manuguru)	01.08.2006
12.	Arun Bose	HWP (Manuguru)	01.08.2006
13.	Riju Bhatnagar	HWP (Manuguru)	01.08.2006
14.	Plaban Kumar Mallik	HWP (Manuguru)	01.08.2006
15.	Dasigi Venkateswarlu	HWP (Manuguru)	01.08.2006

The Above Officers relinquished charge of the lower post held by them on the forenoon of date mentioned against each.

R. K. SAINI
Chief Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad, the 11th November 2006

No. NFC/PAR-I/03/03/1063.—The President is pleased to appoint the following personnel, in the grade of Scientific Officer 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01.09.2006, until further orders :—

1. Kum Vijaya Rekha Dasika
2. Shri M. Satyanarayana
3. Shri S. R. Krishna Yarabarla
4. Shri Sameer Nautiyal

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

No. NFC/PAR-1/03/03/1064.—The President is pleased to appoint the following personnel, in the grade of Scientific Officer 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in New Zirconium Oxide & Sponge Plant, Palayakayal, Tuticorin, Tamilnadu (a unit of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01.09.2006 until further orders.

1. Shri P. Ranganath Prasad
2. Shri Harjeet Singh Verma
3. Shri Sushant Nigam

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 14th November 2006

No. AMD-4/2/2006-Rectt./1373/483.—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers/Engineers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grade Scientific Officer-F carrying the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Directorate in an officiating capacity with effect from the dates shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion Grade	Substantive post held	Date of Assumption of Charge
1	2	3	4	5	6
1.	S/Shri/Smt. Virag Saran	SO-E	SO-F	Group-B (Sci.)	01.08.2006
2.	S. B. Singh	SO-E	SO-F	Group-B (Sci.)	01.08.2006
3.	Bikash Kumar Guha	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
4.	N. G. K. Acharyulu	SO-E	SO-F	Group-B (Sci.)	01.08.2006
5.	N. K. Bahukhandi	SO-E	SO-F	Group-B (Sci.)	01.08.2006
6.	S. R. Bhagwan	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
7.	Dr. A. Yugandhara Rao	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
8.	G. S. Choudhary	SO-E	SO-F	Group-B (Sci.)	01.08.2006
9.	Dr. Eric D'cruz	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
10.	K. K. Sinha	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
11.	M. K. Ganguly	SO-E	SO-F	Group-B (Tech.)	01.08.2006
12.	A. Meenakshi Sundari	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
13.	Dr. Neeru Rawal	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
14.	Y. V. Rathaiah	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
15.	R. C. Jain	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
16.	Rajiv Vimal	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
17.	Dr. A. V. Subramaniam	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
18.	Rajan Chopra	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006

1	2	3	4	5	6
19.	S/Shri/Smt. D. Bhattacharya	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
20.	U. P. Sharma	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
21.	S. K. Sharma	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006
22.	P. Nageswara Rao	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2006

Dr. ANJAN CHAKI
Director

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL
AVIATION

New Delhi-110 003, the 8th November 2006

No. A-32013/1/2005-E. II.—On the basis of recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri A. K. Chopra, Deputy Director General, on his promotion to the post of Joint Director General of Civil Aviation, in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Office of the Director General of Civil Aviation Headquarters, New Delhi with effect from the forenoon of 8th November, 2006 on regular basis and until further orders.

RAVINDRA KUMAR
Dy. Director of Admin.
for Director General of Civil Aviation

DIRECTOR GENERAL OF WORKS
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 15th November 2006

No. 27-ADG/A(1)/2006-EC-II/EW-I.—Shri Anant Ram, ADG (Works-Special), Central Public Works Department, shall retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 30.11.2006 (AN).

DEEPAK GROVER
Under Secy.

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400 020, the 1st November 2006

No. F. 48-Ad(AT)/2006.—Shri Manoj Kashyap, Hindi Translator, Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi is appointed to officiate as Hindi Officer, on ad hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 12th October, 2006 for a period

of six months in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad hoc and will not bestow upon him any claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Probis Management Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/90580/24929.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Probis Management Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Digamber Fibre Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2005/560(5)/55/104191/24932.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Digamber Fibre Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Airen and Associates Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93998/24936.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Airen and Associates Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nanak Mediways Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/105123/24939.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nanak Mediways Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mithun Investment Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/76495/24942.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mithun Investment Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Excellents Surveyors Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93443/24954.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Excellents Surveyors Private Limited has this day been struck off from

the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Radha Krishna Lumbers Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/90888/24960.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Radha Krishna Lumbers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Diksha Auto Products Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93120/24961.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Diksha Auto Products Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dolphin Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/92463/24964.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dolphin Impex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B & R Badinski Network Management
Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/95793/24967.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. B & R Badinski Network Management Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shaw Marketing India Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/94467/24973.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shaw Marketing India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sri Radha Overseas Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/97912/24976.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Radha Overseas Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Leazer Marketing India Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/94464/24979.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Leazer Marketing India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jim & Judy Head Marketing India Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/94091/24982.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jim & Judy Head Marketing India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unex Multilayers Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/18741/25013.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unex Multilayers Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gupta Cosmetics Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/05/34496/25028.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gupta Cosmetics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jugmug Contracts Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/101576/25031.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jugmug Contracts Private Limited has this day been struck off from

the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vigrous Vigilant Security Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/114214/25034.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vigrous Vigilant Security Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhan Ganga Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/05/33829/25035.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhan Ganga Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. L. Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/05/30802/25037.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. L. Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chain Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 19th June 2006

No. SES-2003/560(5)/05/33089/25038.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chain Holdings Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahamaya Automotives Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/95290/25077.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahamaya Automotives Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Thorpe Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93956/25083.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Thorpe Marketing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hunt Sales Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93720/25086.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hunt Sales Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alfa Surveyors Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/89165/25089.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alfa Surveyors Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Witzenburg Network Management Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93844/25092.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Witzenburg Network Management Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ayling Network Management Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/96105/25095.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ayling Network Management Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Usanee Network Management Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/95644/25098.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Usanee Network Management Private Limited has this day been struck off

from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Stewart Network Management Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/95798/25101.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Stewart Network Management Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bessett Network Management Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93556/25104.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bessett Network Management Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brice & Ruth Douglas Network Management Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/95581/25107.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brice & Ruth Douglas Network Management Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. D Mark Network Management Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93571/25110.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. D Mark Network Management Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Supat Network Management Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/95785/25113.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Supat Network Management Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sukham Leathers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/81527/25116.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sukham Leathers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rinton Power Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/82858/25119.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rinton Power

Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yuganter Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/05/31001/25122.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yuganter Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dayun Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57211/25125.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dayun Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mark Flight Links Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/92452/25128.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mark Flight Links Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alliance Comp (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/99381/25131.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alliance Comp (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mokashi Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/97782/25134.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mokashi Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Telemac Communications Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/32959/25137.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Telemac Communications Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uncle Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/32615/25140.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Uncle Chits Private Limited has this day been struck off from the Register

and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Varnan Communications Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/32521/25143.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Varnan Communications Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K. K. Food Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/32847/25146.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. K. Food Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Crystal Leasing Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/32988/25149.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Crystal Leasing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Skylark Reproduction Centre Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/32491/25156.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Skylark Reproduction Centre Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Behror Chit Funds Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/32492/25159.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Behror Chit Funds Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parasnath Marmo (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/97098/25162.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Parasnath Marmo (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Windows Training India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93764/25165.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Windows Training India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. I. S. H. Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/97855/25168.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. I. S. H. Impex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K. S. Jewellers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/91918/25171.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. S. Jewellers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bholanath Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/99375/25174.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bholanath Impex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pent House Travels & Tours Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/39344/25177.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pent House Travels & Tours Private Limited has this day been struck off

from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. V. M. M. Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/65422/25182.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V. M. M. Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. F. A. F. Steels Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/76981/25192.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. F. A. F. Steels Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lucky Fincap Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/79774/25195.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lucky Fincap Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Skoch-e-Education Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/101551/25198.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Skoch-e-Education Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rachit Steel Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/79607/25201.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rachit Steel Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Delphi Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/80646/25203.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Delphi Marketing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Centum Floritech and Research Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/97934/25207.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Centum Floritech and Research Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trivector Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/95782/25208.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trivector Technologies Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. D. A. Leasing & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57355/25211.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. D. A. Leasing & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahesh Glass Syringes Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57501/25214.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahesh Glass Syringes Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cenlub Finance and Investment Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57509/25217.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cenlub Finance and Investment Private Limited has this day been struck off

from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasundhara Agro Tech Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/70280/25220.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vasundhara Agro Tech Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Paramount Graphics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57710/25225.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paramount Graphics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vulcan Capital Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57732/25228.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vulcan Capital Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanam Publications Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/92753/25231.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanam Publications Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. U. K. Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/89598/25240.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. U. K. Technologies Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gourava Films Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/80240/25243.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gourava Films Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lubel Design Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/83756/25246.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lubel Design Private Limited has this day been struck off from the Register

and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kisga Steel Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/77088/25249.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kisga Steel Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kwaliti Offset Printers Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/100208/25252.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kwaliti Offset Printers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Axis Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/77638/25255.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Axis Infotech Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Benzeer Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/05/30622/25258.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Benzeer Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dwarka Dash Apparels Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/47667/25261.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dwarka Dash Apparels Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neeru Farms Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/90159/25264.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neeru Farms Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Safeda Farms Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/90327/25267.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Safeda Farms Private Limited has this day been struck off from the Register

and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Santoor Farms Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/90057/25270.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Santoor Farms Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. G. T. Carriers & Contractors Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/05/33488/25273.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. G. T. Carriers & Contractors Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sehgal's Wet N Wild Resorts Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/82620/25276.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sehgal's Wet N Wild Resorts Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. C. M. Jindal Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57027/25279.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C. M. Jindal Electronics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarvottam Transport Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57426/25282.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarvottam Transport Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. E. L. S. International (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57659/25285.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. E. L. S. International (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. D. I. Share Services Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57533/25288.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. D. I. Share Services Private Limited has this day been struck off from

the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zubaida Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/44036/25290.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zubaida Engineers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cosmopolitan Public School Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/244031/25293.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cosmopolitan Public School Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arjun Computer Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/78779/25296.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arjun Computer Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Twenty First Century Electronics Limited

New Delhi-110019, the 21st June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/18487/25299.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Twenty First Century Electronics Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jamia Investment & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 31st May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74053/24424.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jamia Investment & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manipur Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 23rd June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/83699/25519.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manipur Holdings Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepshikha Crafts Private Limited

New Delhi-110019, the 23rd June 2006

No. SES-2003/560(5)/55/106071/25547.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deepshikha Crafts Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tanu Leathers Private Limited

New Delhi-110019, the 26th June 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/16292/25608.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tanu Leathers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pushp Wires Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/40097/25788.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pushp Wires Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Dy. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lovato Auto Gas Private Limited

Bangalore, the 2006

No. TA/H/S. 560(5)/24789/06-07.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lovato Auto Gas Private Limited has this day been struck off from the Register or Registrar of Companies and the said Company shall stand

dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Cuttack-753001, the 16th November 2006

No. ROC/SES-2005/560(5)/5382.—Notice is hereby
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that the name of the following
Companies has this day been struck off from the Register

of Registrar of Companies, Orissa and the said companies
are dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-001327	M/s. Lions Paper Pack Private Limited
2.	15-002581	M/s. J. D. Farm Technology Private Limited
3.	15-003681	M/s. Elco Foil Industries Private Limited
4.	15-003700	M/s. Replica Films Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa